



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 554]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, नवम्बर 16, 2006/कार्तिक 25, 1928

No. 554]

NEW DELHI, THURSDAY, NOVEMBER 16, 2006/KARTIKA 25, 1928

कार्मिक, लोक-शिक्षा और पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 706(अ).—भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग) नियमावली, 1954 के नियम 4 के उप-नियम (2) के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवाएँ अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

1. (i) इन विनियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) संशोधन विनियमावली, 2006 है।

(ii) ये विनियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (संवर्ग पद संख्या का नियतन) विनियमावली, 1955 की अनुसूची में "गुजरात" शीर्षक और उसके नीचे आने वाली प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रविष्टियाँ प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात् :-

गुजरात

1. राज्य सरकार के अधीन वरिष्ठ ड्यूटी पद	142
मुख्य सचिव	1
अपर मुख्य सचिव	3
सरकार के प्रधान सचिव	9
वाणिज्यिक कर आयुक्त	1
प्रधान आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	1

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण

महानिदेशक, एस पी आई पी ए	1
मुख्य चुनाव अधिकारी, गुजरात राज्य	1
सरकार के सचिव	18
विकास आयुक्त	1
उद्योग आयुक्त	1
बन्दोबस्त आयुक्त एवं निदेशक भूमि रिकार्ड	1
भूमि सुधार आयुक्त	1
कुटीर तथा ग्रामीण उद्योग आयुक्त	1
परिवहन आयुक्त	1
उच्च शिक्षा आयुक्त	1
मत्स्य पालन आयुक्त	1
स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएँ और चिकित्सा शिक्षा आयुक्त	1
महिला एवं बाल विकास आयुक्त	1
भूगर्भ शास्त्र एवं खनन आयुक्त	1
ग्रामीण विकास आयुक्त	1
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	1
राज्यपाल के प्रधान सचिव	1
वाणिज्यिक कर के विशेष आयुक्त	1
आयुक्त, विद्यालय और मध्य दिवस भोजन	1
मुख्य मंत्री के सचिव	1
सरकार के अपर/संयुक्त/उप सचिव	25
कलेक्टर	25
जिला विकास अधिकारी	25
निदेशक, नगर पालिकाएँ	1
पंजीयक, सहकारी समितियाँ	1

श्रम आयुक्त	1	1	2	3
आयुक्त, मनोरंजन कर	1	10.	308	8-3-1975
उप-महानिदेशक, एस पी आई पी ए	1	11.	1251	21-10-1978
निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण	1	12.	221अ	21-4-1980
निदेशक, नागरिक आपूर्ति	1	13.	639	11-7-1981
अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक	1	14.	37	18-1-1986
उद्योग अपर आयुक्त	1	15.	190	26-3-1988
विकास अपर आयुक्त	1	16.	419	17-6-1989
अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर	1	17.	271	6-6-1992
ग्रामीण विकास अपर आयुक्त	1	18.	654अ	15-10-1993
स्टाम्प अधीक्षक और पंजीकरण महानिरीक्षक	1	19.	297	25-6-1994
निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो	1	20.	319अ	31-3-1995
केन्द्रीय प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त	1	21.	754अ	4-11-1999
मद 1 का 40 प्रतिशत की दर से	56	22.	140	29-3-2000
3. राज्य प्रतिनियुक्ति रिजर्व, उपर्युक्त				
मद 1 का 25 प्रतिशत की दर से	35			
4. प्रशिक्षण रिजर्व, उपर्युक्त मद 1 का				
3.5 प्रतिशत की दर से	04			
5. भारतीय प्रशासनिक सेवा (भर्ती) नियमावली, 1954				
के नियम 8 के अनुसार पदोन्नति तथा चयन	79			
द्वारा भरे जाने वाले पद (उपर्युक्त मद 1, 2, 3				
तथा 4 के 33.3 प्रतिशत से अधिक नहीं)				
6. छुट्टी रिजर्व और कनिष्ठ पद रिजर्व, उपर्युक्त				
मद 1 के 16.5 प्रतिशत की दर से	23			
7. सीधी भर्ती द्वारा भरे जाने वाले पद				
(मद 1+2+3+4+6-5)	181			
कुल प्राधिकृत पद संख्या	260			

[सं. 11031/08/2004-अ.भा.से. (II)-क]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएँ)

टिप्पणी 1 : इस अधिसूचना के जारी होने से पूर्व गुजरात संवर्ग की कुल प्राधिकृत संख्या 248 थी।

टिप्पणी 2 : मुख्य विनियम दिनांक 22-10-1955 की एस.आर. ओ. संख्या 3350 द्वारा भारत के राजपत्र में प्रकाशित किए गए थे। बाद में गुजरात संवर्ग के संबंध में इन विनियमों में निम्नलिखित सा.का.नि. संख्याओं द्वारा उनके सामने दर्शायी गई तारीख से संशोधन किए गए।

क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1	2	3
1.	505	29-4-1960
2.	979	27-8-1960
3.	226	24-2-1962
4.	163	2-2-1963
5.	435	14-3-1964
6.	1715	27-11-1964
7.	1275	4-9-1965
8.	1231	13-8-1966
9.	1116	29-9-1967

MINISTRY OF PERSONNEL, PUBLIC GRIEVANCES AND PENSIONS

(Department of Personnel and Training)

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2006

G.S.R. 706(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 3 of the All India Services Act, 1951 (61 of 1951), read with Sub-rule (2) of Rule 4 of the Indian Administrative Service (Cadre) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat, hereby makes the following regulations further to amend the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, namely:—

1. (1) These Regulations may be called the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Amendment Regulations, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the official Gazette.

2. In the schedule to the Indian Administrative Service (Fixation of Cadre Strength) Regulations, 1955, for the heading "Gujarat" and the entries occurring there under, the following shall be substituted namely:—

GUJARAT

1. Senior Posts under the State Government	142
Chief Secretary	1
Additional Chief Secretary	3
Principal Secretary to the Government	9
Commissioner of Commercial Tax	1
Principal Resident Commissioner, New Delhi	1
Chief Executive Officer, Gujarat Disaster Management Authority	1
Director General of SPIPA	1
Chief Electoral Officer, Gujarat State	1
Secretary to Government	18
Development Commissioner	1
Industries Commissioner	1
Settlement Commissioner and Director of Land Records	1

Commissioner of Land Reforms	1
Commissioner of Cottage & Rural Industries	1
Commissioner of Transport	1
Commissioner of Higher Education	1
Commissioner of Fisheries	1
Commissioner of Health, Medical Services and Medical Education	1
Commissioner of Women & Child Development	1
Commissioner of Geology & Mining	1
Commissioner of Rural Development	1
Principal Secretary to Chief Minister	1
Principal Secretary to Governor	1
Special Commissioner of Commercial Tax	1
Commissioner of Schools and Mid-day Meals	1
Secretary to Chief Minister	1
Additional/Joint/Deputy Secretary to Government	25
Collector	25
District Development Officer	25
Director of Municipalities	1
Registrar of Cooperative Societies	1
Commissioner of Labour	1
Commissioner, Entertainment Tax	1
Deputy Director General SPIA	1
Director of Employment & Training	1
Director of Civil Supplies	1
Director of Scheduled Caste Welfare	1
Additional Commissioner of Industries	1
Additional Development Commissioner	1
Additional Commissioner of Commercial Tax	1
Additional Rural Development Commissioner	1
Superintendent of Stamps and Inspector General of Registration	1
Director, Bureau of Public Enterprises	1
2. Central Deputation Reserve @ 40% of item 1 above	56
3. State Deputation Reserve @ 25% of Item 1 above	35
4. Training Reserve @ 3.5% of Item 1 above	4
5. Posts to be filled by promotion and selection under Rule 8 of the Indian Administrative Service (Recruitment) Rules, 1954 not exceeding 33 1/3% of Items 1, 2, 3 and 4 above)	79
6. Leave Reserve and Junior Posts Reserve @ 16.5% of Item 1 above	23
7. Posts to be filled up by Direct Recruitment (Items 1 +2+3+4+6-5)	181
Total Authorised Strength	260

[No. 11031/08/2004-AIS (II)-A]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

Note (1) : Prior to issue of this notification, the Total Authorised Strength of Gujarat Cadre was 248.

Note (2) : The principal regulations were published in the Gazette of India vide No. S.R.O. 3350 dated 22nd October, 1955. These were subsequently amended in respect of the Gujarat Cadre vide the following G.S.R. Nos. and dates. :

S.No.	G.S.R. No.	Date
1.	505	29-04-1960
2.	979	27-08-1960
3.	226	24-02-1962
4.	163	02-02-1963
5.	435	14-03-1964
6.	1715	27-11-1964
7.	1275	04-09-1965
8.	1231	13-08-1966
9.	1116	29-07-1967
10.	308	08-03-1975
11.	1251	21-10-1978
12.	221(E)	21-04-1980
13.	639	11-07-1981
14.	37	18-01-1986
15.	190	26-03-1988
16.	419	17-06-1989
17.	271	06-06-1992
18.	654(E)	15-10-1993
19.	297	25-06-1994
20.	319(E)	31-03-1995
21.	754(E)	04-11-1999
22.	140	29-03-2000

अधिसूचना

नई दिल्ली, 16 नवम्बर, 2006

सा.का.नि. 707(अ).- भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 के नियम 11 के साथ पठित, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम, 1951 (1951 का 61) की धारा 3 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार, गुजरात सरकार के परामर्श से भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में आगे और संशोधन करने के लिए एतद्वारा निम्नलिखित विनियम बनाती है, अर्थात् :-

- (i) इन नियमों का नाम भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) संशोधन नियमावली, 2006 है।
- (ii) ये नियम भारत के राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।
2. भारतीय प्रशासनिक सेवा (वेतन) नियमावली, 1954 में, (क) 'अनुसूची-III-क' में "राज्य सरकार के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के समय वेतनमान से ऊपर के पदों में" तालिका के प्रथम कॉलम की "गुजरात" प्रविष्टि और दूसरे

तथा तीसरे कॉलमों में तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

गुजरात

मुख्य सचिव	26,000/- रुपए (नियत)
अपर मुख्य सचिव	26,000/- रुपए (नियत)
सरकार के प्रधान सचिव	22400-525-24500/- रुपए
वाणिज्यिक कर आयुक्त	22400-525-24500/- रुपए
प्रधान आवासीय आयुक्त, नई दिल्ली	22400-525-24500/- रुपए
मुख्य कार्यकारी अधिकारी,	22400-525-24500/- रुपए
गुजरात आपदा प्रबंधन प्राधिकरण	
महानिदेशक, एस पी आई पी ए	22400-525-24500/- रुपए
मुख्य चुनाव अधिकारी, गुजरात राज्य	22400-525-24500/- रुपए
सरकार के सचिव	18400-500-22400/- रुपए
विकास आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
उद्योग आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
बन्दोबस्त आयुक्त एवं निदेशक	
भूमि रिकार्ड	18400-500-22400/- रुपए
भूमि सुधार आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
कुटीर और ग्रामीण उद्योग आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
परिवहन आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
उच्च शिक्षा आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
मत्स्य पालन आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
स्वास्थ्य, चिकित्सा सेवाएं और	
चिकित्सा शिक्षा आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
महिला एवं बाल विकास आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
भूगर्भ शास्त्र एवं खनन आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
ग्रामीण विकास आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव	18400-500-22400/- रुपए
राज्यपाल के प्रधान सचिव	18400-500-22400/- रुपए
वाणिज्यिक कर के विशेष आयुक्त	18400-500-22400/- रुपए
आयुक्त, विद्यालय और अर्ध दिवस	
भोजन	18400-500-22400/- रुपए

(ख) अनुसूची III-ख में, 'राज्य सरकारों के अधीन भारतीय प्रशासनिक सेवा के बरिष्ठ समय वेतनमान में, (समय वेतनमान में वेतन के अतिरिक्त विशेष वेतन वाले पदों सहित) वेतन लेने वाले पदों में, तालिका के पहले कॉलम में आने वाली 'गुजरात' प्रविष्टि के लिए और दूसरे कॉलम में आने वाली तदनुरूपी प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :-

मुख्य मंत्री के सचिव

सरकार के अपर/संयुक्त/उप-सचिव

कलैक्टर

जिला विकास अधिकारी

निदेशक, नगर पालिकाएं

पंजीयक, सहकारी समितियां

श्रम आयुक्त

आयुक्त, मनोरंजन कर

उप-महानिदेशक, एस पी आई पी ए

निदेशक, रोजगार और प्रशिक्षण

निदेशक, नागरिक आपूर्ति

अनुसूचित जाति कल्याण निदेशक

उद्योग अपर आयुक्त

विकास अपर आयुक्त

अपर आयुक्त वाणिज्यिक कर

ग्रामीण विकास अपर आयुक्त

स्टाम्प अधीक्षक और पंजीकरण महानिरीक्षक

निदेशक, लोक उद्यम ब्यूरो

[सं. 11031/08/2004-अ.भा.से. (II)-(ख)]

संगीता सिंह, निदेशक (सेवाएं)

टिप्पणी : मुख्य नियम दिनांक 14-09-1954 को भारत के राजपत्र में संख्या का.नि.आ. 158 के अंतर्गत प्रकाशित किए गए थे। गुजरात के संबंध में मुख्य नियमों की अनुसूची III में संशोधन निम्नलिखित सा.का.नि. संख्या द्वारा उनके सामने दर्शायी गई तारीख को किए गए :-

क्र. सं.	सा.का.नि. संख्या	दिनांक
1.	506	29-4-1960
2.	980	27-8-1960
3.	227	24-2-1962
4.	164	2-2-1963
5.	436	14-3-1964
6.	1716	27-11-1964
7.	1276	4-9-1965
8.	1232	13-8-1966
9.	1117	29-9-1967
10.	309	8-3-1975
11.	222(अ)	21-4-1980
12.	640	11-7-1981
13.	420	17-6-1989
14.	654(अ)	15-10-1993
15.	297	25-6-1994
16.	755(अ)	4-11-1999

NOTIFICATION

New Delhi, the 16th November, 2006

G.S.R. 707(E).—In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 3 of the All India, Services Act, 1951 (61 of 1951), read with rule 11 of the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, the Central Government, in consultation with the Government of Gujarat hereby makes the following rules further to amend the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954, namely :—

1. (1) These rules may be called the Indian Administrative Service (Pay) Amendment Rules, 2006.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Indian Administrative Service (Pay) Rules, 1954 :—

(a) In "Scheduled III -A posts carrying pay above the time scale of pay of the Indian Administrative Service under the State Governments", in the table, for the entry 'Gujarat' occurring in the first column and corresponding entries in the second and third columns, the following shall be substituted namely :—

GUJARAT

Chief Secretary	Rs. 26,000/- (Fixed)
Additional Chief Secretary	Rs. 26,000/- (Fixed)
Principal Secretary to the Government	Rs. 22400-525-24500/-
Commissioner of Commercial Tax	Rs. 22400-525-24500/-
Principal Resident Commissioner, New Delhi	Rs. 22400-525-24500/-
Chief Executive Officer, Gujarat	
Disaster Management Authority,	Rs. 22400-525-24500/-
Director General of SPIPA	Rs. 22400-525-24500/-
Chief Electoral Officer, Gujarat	
State	Rs. 22400-525-24500/-
Secretary to Government	Rs. 18400-500-22400/-
Development Commissioner	Rs. 18400-500-22400/-
Industries Commissioner	Rs. 18400-500-22400/-
Settlement Commissioner and	
Director of Land Records	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Land Reforms	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Cottage and	
Rural Industries	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Transport	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Higher	
Education	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Fisheries	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Health,	
Medical Services and Medical	
Education	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Women and	
Child Development	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Geology and	
Mining	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Rural	
Development	Rs. 18400-500-22400/-
Principal Secretary to Chief	
Minister	Rs. 18400-500-22400/-
Principal Secretary to Governor	Rs. 18400-500-22400/-
Special Commissioner of	
Commercial Tax	Rs. 18400-500-22400/-
Commissioner of Schools and	
Mid-day Meals	Rs. 18400-500-22400/-

(b) In "Schedule III-B Posts carrying pay in the senior scale of the Indian Administrative Service under the State Government (including posts carrying Special Pay in addition to pay in the time scale)" in the Table, for the entry 'Gujarat' occurring in the first column and the corresponding entries in the second column, the following shall be substituted, namely :—

Secretary to Chief Minister
Additional/Joint /Deputy Secretary to Government
Collector
District Development Officer
Director of Municipalities
Registrar of Cooperative Societies
Commissioner of Labour
Commissioner, Entertainment Tax
Deputy Director General SPIPA
Director of Employment and Training
Director of Civil Supplies
Director of Scheduled Caste Welfare
Additional Commissioner of Industries
Additional Development Commissioner
Additional Commissioner of Commercial Tax
Additional Rural Development Commissioner
Superintendent of Stamps and Inspector
General of Registration
Director, Bureau of Public Enterprises

[No. 11031/08/2004-AIS (II)-B]

SANGEETA SINGH, Director (Services)

Note : The principal rules were published in the Gazette of India *vide* S.R.O. No.158, dated 14-9-1954. Schedule III of the Principal Rules in respect of Gujarat have been amended *vide* G.S.R. Nos. and dates :—

S.No.	G.S.R. No.	Date
1.	506	29-4-1960
2.	980	27-8-1960
3.	227	24-2-1962
4.	164	02-2-1963
5.	436	14-3-1964
6.	1716	27-11-1964
7.	1276	04-9-1965
8.	1232	13-8-1966
9.	1117	29-7-1967
10.	309	08-3-1975
11.	222(E)	21-4-1980
12.	640	11-7-1981
13.	420	17-6-1989
14.	654(E)	15-10-1993
15.	297	25-6-1994
16.	755(E)	04-11-1999

3637 GI/06-2